

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय),
ऑडिट भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002



OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE),
AUDIT BHAWAN, INDRAPRASTHA ESTATE,
NEW DELHI-110002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/आई.एन.सी./2025-26/ 363

दिनांक: 29.10.2024

सेवा में,

डॉ. टी. दिलीप कुमार,
अध्यक्ष,
भारतीय उपचर्या परिषद,
8वीं मंजिल, एनबीसीसी केंद्र,
प्लॉट नंबर 2, सामुदायिक केंद्र
ओखला फेस-1, नई दिल्ली-110020

29 OCT 2025

विषय : वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के लेखाओं के प्रबंधन पत्र के संबंध में।

महोदय,

भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गई है तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र संख्या: ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/आई.एन.सी./2025-26/ 363 के द्वारा दिनांक: 29.10.2024 को जारी किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई कुछ विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अतः इन विसंगतियों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह अनुरोध है कि इन पर उचित सुधारात्मक कारवाई की जाये।

अनुलग्नक: यथापरि

भवदीया,

(एकता सिंह)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

Annexure to Management Letter No. AMG-IV/SAR/INC/2025-26/ 363

1. INC had disposed off an asset of Written Down Value (WDV) of ₹ 9550/- and a photocopier with WDV of ₹2974/- under buy-back for ₹5,932/- and ₹20,000 /- respectively during 2024-25. However the Assets were not adjusted for such disposal in the Fixed Assets Schedule. This has resulted in overstatement of Fixed Assets and Coppus/Captial Fund by ₹12,524/-.
Further, the net disposal value exceeded the WDV of these assets, however, the additional income (₹ 13408) has not been recognized in the accounts.
2. INC had reflected Flexi Quarterly Interest of ₹20.81 lakh in the Schedule-18 "Interest Earned". However, the bank's interest certificate reflected an amount of ₹ 30.11 lakh (excluding SB interest). This has resulted in understatement of Income and Current Assets by ₹9.29 lakh.
3. The INC did not capitalize the GST paid on computers, plant and machinery, equipment etc. Since capitalization of GST has a bearing on the Gross Asset Value and depreciation thereon. This may be rectified.
4. The accounts of the INC were not drawn in the Uniform Format of accounts notified by the Ministry of Finance. The Schedule numbers of the accounts did not match with the Uniform Format.
5. INC had depicted an amount of ₹45.18 lakh as TDS receivables in the Schedule-12 "Current Assets, Loans & Advances etc.". The tax was deducted at source by Bank on Interest income and the pendency is from the year 2021-22. Efforts must be made to get the refund from the Income Tax Department.

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय),
ऑडिट भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002



OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE),
AUDIT BHAWAN, INDRAPRASTHA ESTATE,
NEW DELHI-110002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/आई.एन.सी./2025-26/

दिनांक:

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदया,

मैं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-25 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124, को भेजी जाए ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2024-25 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।”

भवदीया,

अनुलग्नक: यथोपरि

— हस्ता —
(एकता सिंह)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/आई.एन.सी./2025-26/ 282


दिनांक: 29.10.2025

29 OCT 2025

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, डॉ. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष, भारतीय उपचर्या परिषद, 8वीं मंजिल, एनबीसीसी केंद्र, प्लॉट नंबर 2, सामुदायिक केंद्र ओखला फेस-I, नई दिल्ली-110020, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाए।

अनुलग्नक: यथोपरि



(एकता सिंह)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)


ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/आई.एन.सी./2025-26/

दिनांक:

भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित महानिदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह पत्र महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि



(एकता सिंह)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Indian Nursing Council (INC) for the year ended 31st March 2025

Opinion

We have audited the financial statements of Indian Nursing Council (INC), which comprise the statement of financial position as at 31st March 2025 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 section 16(a) of the Indian Nursing Council's Act 1947.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion the accompanying financial statements of INC, read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, give a true and fair view of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and (of) its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with uniform format of accounts.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.


Responsibilities of Management for the financial statements

The Executive Committee of INC is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts, and for internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc.

For and on behalf of C&AG of India



**(Saurav Kumar Jaipuriyar)
Director General of Audit
(Central Expenditure)**

Place: New Delhi

Date: 29.10.2025